

ब्रह्माकुमारीज, सेक्टर-28,गांधीनगर द्वारा सेक्टर-19, जिमखाना में  
'Smart Living in Smart City' विषय पर टॉक शो का आयोजन किया गया

---

ब्रह्माकुमारीज, सेक्टर-28,गांधीनगर द्वारा सेक्टर-19, जिमखाना में 24 डिसेम्बर को वर्तमान अति जरूरी 'Smart Living in Smart City' विषय पर टॉक शो का आयोजन किया गया ।

भारत सरकार ने देश के 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का फेसला किया है । जिसके प्रथम चरण में गुजरात राज्य के चुने गए चार सिटी में गांधीनगर भी समाविष्ट है । सरकार के अथाह प्रयोसो से धि विजन ऑफ ए अर्बन स्पेस यानि की एन्वायर्नमेंटल्ली फ्रेंडली, टेक्नोलोजिकल्ली इंटीग्रेटेड एवं मेथोडोलोजिकल्ली प्लांड स्मार्ट सिटी तो तैयार हो ही जाएंगे । पर उसके साथ ही साथ स्मार्ट सिटी मे रहनेवाले नागरिकों को भी स्मार्ट लिविंग के लिए पहले से ही सज्ज होना जरूरी होगा । इसी बात पर विचार गोस्टी करके नागरिकों को सहभागी बनाने की दिशा मे कदम बढ़ाने इस टॉक शो आयोजन किया गया था।

मंचासिन महानुभावों का पुष्प गुच्छो एवं शब्दो से स्वागत के साथ गांधीनगर की कुमारी शितल द्वारा 'चहक उठी है वादिया, चरण जो आपके पड़े ....गीत पर स्वागत नृत्य पेश किया गया। इस टॉक शो में मुख्य स्पीकर के रूप में ब्रह्माकुमारीज, वर्ल्ड हेड क्वार्टर माउंट आबु से सीनियर राजयोगा टीचर एवं मेनेजमेंट ट्रेनर राजयोगिनी उषादीदी के साथ ब्रह्माकुमारीज गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर राजयोगिनी कैलाशदीदी एवं राज्य और केंद्र प्रशासन के विभिन्न विभागो के मुख्य अधिकारियों को भी इस विषय पर उनके प्लानिंग, अनुभव एवं विचारों को एक रूप देने हेतु विशेष आमंत्रित किया गया था । टॉक शो के मुख्य मेहमान के रूप में (1) भ्राता.जी.आर.चौधरी,आई.ए.एस., म्यूनिसिपल कमिशनर,गांधीनगर ने अपने प्रशानिक पद से जरूर जितने ही पानी का वपराश करने का, कूड़ा कचरा कूड़ादान में ही डालने जैसी अनेक विध बातों के लिए नागरिकों के सहकार की अपील की । जबकि (2) भ्राता सी.वी.सोम,आई.ए.एस. मेनेजिंग डिरेक्टर,गुजरात राज्य सिविल सप्लाय कोर्पोरेशन ली. गांधीनगर ने नागरिकों के अधिकार के साथ स्मार्ट सिटी में नागरिकों की विविध फर्ज की भी पेशकश की. अतिथि विशेष (3) भ्राता एम.एस.दिल्लोन,

आई.टी.एस. चीफ जनरल मेनेजर,बी.एस.एन.एल., गुजरात सर्कल, अहमदाबाद, (4) भगिनी हंसाबेन मोदी, मेयर, गांधीनगर महानगर पालिका एवं (5) भ्राता महेंद्रसिंह राणा, पूर्व मेयर, गांधीनगर महानगर पालिका ने भी खास उपस्थित रह कर अपने अपने विचार पेश किए थे । इस विषय पर बहुत अच्छे अच्छे विचार, मनन, मंथन, सुजाव निकले थे । टॉक शो के अंत में (6) भ्राता आशिष ठाकर, आई.टी.एस. जनरल मेनेजर,बी.एस.एन.एल.,गांधीनगर ने वोट ऑफ थैंक्स करने के पश्चात इलेक्ट्रिक गिटार पर चलते चलते कभी अलविदा न कहना ... गीत पेश किया था । इस टॉक शॉ का 500 महानुभावों ने बहुत ही दिल चस्पी से लाभ लिया । कार्यक्रम के अंत मे सभी ने ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके खुद को धन्य अनुभव किया । इस टॉक शो के पश्चात सभी के आग्रह से जिमखाना में ही राजयोगा शिविर का भी आयोजन किया गया है ।

ईश्वरीय सेवा में,

बी.के.कैलाश

(संचालिका, ब्रह्माकुमारीज गांधीनगर)

Mo.09979099922